

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

# CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



10<sup>th</sup> October 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS  
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



## INDEX

### DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

**10<sup>th</sup> October 2022**

1. - क्रीमिया प्रायद्वीप: .....	3
(i) क्रीमिया प्रायद्वीप: .....	3
(ii) काला सागर: .....	3
2. - भौतिकी में नोबेल पुरस्कार: .....	4
(i) भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में: .....	4
3. - गर्म तरंगें: .....	5
(i) के बारे में: .....	5
(ii) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हीट वेव्स के लिए निम्नलिखित मानदंड दिए हैं: .....	5
4. - वीवीपैट सिस्टम: .....	6
(i) पार्श्वभूमि: .....	6
(ii) वीवीपैट के बारे में: .....	6
(iii) यह महत्वपूर्ण क्यों है? .....	6

GURU DEEKSHAA IAS



संपादकीय विश्लेषण .....7

1. यूएनएचआरसी:.....7

- (i) अवलोकन:..... 7
- (ii) सीटें संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के बीच वितरित की जाती हैं: ..... 7
- (iii) यूएनएचआरसी के लक्ष्य हैं: ..... 7
- (iv) यूएनएचआरसी, भारत में: ..... 7
- (v) यूएनएचआरसी के बारे में चिंताएं: ..... 8
- (vi) निष्कर्ष: ..... 8

2. चंद्रयान 2: ..... 9

- (i) जल अणु: ..... 9
- (ii) मामूली घटक: ..... 9
- (iii) यह सब कैसे फायदेमंद है? ..... 10

GURU DEEKSHAA IAS



## 1. - क्रीमिया प्रायद्वीप:

### GS II

विषय→भूगोल से संबंधित मुद्दे

#### ➤ संदर्भ:

- 8 अक्टूबर को, एक विस्फोट ने आंशिक रूप से एक पुल को ध्वस्त कर दिया जो क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से जोड़ता है, दक्षिणी यूक्रेन में क्रेमलिन के स्पटरिंग सैन्य अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन काट रहा है। रूसी अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट में तीन लोगों की जान चली गई।

### क्रीमिया प्रायद्वीप:

- क्रीमिया के नाम से जाना जाने वाला पूर्वी यूरोपीय प्रायद्वीप काला सागर के उत्तरी किनारे के साथ-साथ चलता है।
- आज़ोव का छोटा सागर और काला सागर पूरी तरह से प्रायद्वीप को घेरता है।
- यह यूक्रेन में खेरसाँन ओब्लास्ट से जुड़ा है, जो कि पेरेकोप इस्तमुस द्वारा दक्षिण में स्थित है।
- इसके पश्चिमी पड़ोसी क्रासोडार क्राय को केर्च जलडमरूमध्य द्वारा इससे अलग किया गया है।

### काला सागर:

- काला सागर एक अटलांटिक महासागर की ओर का समुद्र है जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। दक्षिणपूर्व यूरोप के बाल्कन पूर्व में हैं, पूर्वी यूरोप के

पूर्वी यूरोपीय मैदान दक्षिण में हैं, काकेशस पश्चिम में है, और पश्चिमी एशिया का अनातोलिया उत्तर में है।

- डेन्यूब, नीपर और डॉन सहित महत्वपूर्ण नदियाँ इसकी आपूर्ति करती हैं।
- इसकी सीमा से लगे छह देशों के अलावा कई अन्य ऐसे भी हैं जिनके जलसंभर समुद्र में बहते हैं।
- बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन सभी काला सागर के बारे में हैं।



• स्रोत→ हिन्दू



## 2. - भौतिकी में नोबेल पुरस्कार:

### GS III

विषय→विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे

#### ➤ संदर्भ:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नॉर्वे के केमिस्ट कैरोलिन आर. बर्टोज़ी, के. बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डल को रसायन विज्ञान और बायोऑर्थोगोनल रसायन विज्ञान पर उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
- अपने अनुदान में, अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में भौतिकी के लिए पहली पुरस्कार श्रेणी की स्थापना की। कई लोग, शायद नोबेल भी, मानते थे कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में भौतिकी विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। उनके अपने काम में बड़ी मात्रा में भौतिकी भी शामिल है।
- स्टॉकहोम, स्वीडन में, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है।

### भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में:

- एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर, और एंटोन ज़िलिंगर को उनके "उलझे हुए फोटॉनों का उपयोग करने, बेल असमानताओं के उल्लंघन की पुष्टि करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी" के लिए भौतिकी में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
- अपनी खोजों के साथ, उन्होंने अभूतपूर्व क्वांटम सूचना-आधारित प्रौद्योगिकी के लिए द्वार प्रशस्त किया।
- स्रोत→ हिन्दू



### 3. - गर्म तरंगें:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हीट वेव्स के लिए निम्नलिखित मानदंड दिए हैं:

#### GS I

विषय→भूगोल से संबंधित मुद्दे

#### ➤ संदर्भ:

- हीटवेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो सामान्य रूप से तीन दिन या उससे अधिक समय तक रहती है। मार्च से जून तक, भारत में हीटवेव आम हैं। हर मौसम में अक्सर दो से तीन हीटवेव की घटनाएं होती हैं। अनुकूल मौसम के कारण, गर्मी की लहरें ज्यादातर दो क्षेत्रों में दर्ज की जाती हैं: मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत, साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्र तट।

#### के बारे में:

- गर्मी की लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो उत्तर-पश्चिमी भारत में सामान्य गर्मियों के उच्च तापमान से अधिक समय तक रहती है। कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में, गर्मी की लहरें जुलाई तक भी रह सकती हैं। आमतौर पर, गर्मी की लहरें मार्च से जून तक होती हैं। उनके कारण होने वाले शारीरिक तनाव के कारण, उच्च तापमान और संबंधित जलवायु परिस्थितियों का स्थानीय आबादी पर काफी प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी मृत्यु का कारण बन सकता है।

- जब तक किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हीट वेव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
- जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर होता है तो हीट वेव सामान्य से 5°C से 6°C तक प्रस्थान होता है, गंभीर हीट वेव सामान्य से 7°C या अधिक होता है
- जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक होता है तो हीट वेव सामान्य से 4°C से 5°C तक प्रस्थान होता है, गंभीर हीट वेव सामान्य से प्रस्थान 6°C या अधिक होता है
- जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है, सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद, गर्मी की लहरों को घोषित किया जाना चाहिए। उच्च दैनिक चरम तापमान और लंबे समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी गर्मी की लहरों की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है, जो हर गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होती हैं, और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं, जिससे हीट वेव हताहतों की संख्या में वृद्धि होती है।

- स्रोत→ हिन्दू



## 4. - वीवीपैट सिस्टम:

### GS II

विषय→चुनाव संबंधित मुद्दे

#### ➤ संदर्भ:

- नेत्रहीन मतदाताओं को अपने वोटों को प्रमाणित करने की अनुमति देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की मांग करने वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने स्वीकार कर लिया था, जिसने एक चर्चा को प्रज्वलित किया। कुछ विकलांगता अधिकार संगठनों ने संभावित रसद समस्याओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।

#### पार्श्वभूमि:

- चुनाव आचरण नियम, 1961 का नियम 49ए, जो यह कहता है कि प्रत्येक ईवीएम में एक नियंत्रण इकाई और एक मतदान इकाई दोनों होनी चाहिए, का वीवीपैट द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।
- एक वोटिंग डिवाइस में कानून के अनुसार डाले गए वोटों के पेपर रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर और एक ड्रॉप बॉक्स भी हो सकता है।

#### वीवीपैट के बारे में:

- चुनाव आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि VVPAT यह सुनिश्चित करने में योगदान देगा कि राजनीतिक दलों से बात करने के बाद मतदान प्रक्रिया पारदर्शी हो।
- 2013 में नागालैंड में उप-चुनाव इन मशीनों को नियोजित करने वाला पहला चुनाव था।

- VVPAT का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को जोड़ने के लिए किया जाता है। वर्तमान में, एक मतदाता अपना मत डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करता है।
- सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार का नाम और उसकी पार्टी का लोगो वीवीपीएटी द्वारा बनाई गई कागज की पर्ची पर छपा होता है और ईवीएम से जुड़ा होता है। मशीन का कंट्रोल पैनल इसे लॉग करता है। वोटिंग कम्पार्टमेंट में एक प्रिंटर होता है जो वोटिंग मशीन से जुड़ा होता है।
- वीवीपीएटी पर, एक स्पष्ट खिड़की कागज की पर्ची की सात सेकंड की झलक की अनुमति देती है। पुश किए गए ईवीएम बटन का उपयोग पेपर स्लिप तक पहुंचने और अपडेट करने के लिए किया जा सकता है।

#### यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- असहमति की स्थिति में वीवीपीएटी में पेपर पर्चियों और ईवीएम पर लगे बटनों की तुलना करना संभव है। इन मुद्रित पर्चियों को गिनकर परिणामों की पुष्टि की जा सकती है।
- ईवीएम में वर्तमान में यह क्रॉस-चेकिंग कार्यक्षमता नहीं है। वीवीपीएटी का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने सवाल किया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के लिए अभेद्य हैं या नहीं।

- स्रोत→ हिन्दू



## संपादकीय विश्लेषण

### 1. यूएनएचआरसी:

#### अवलोकन:

- इसकी शुरुआत एक साल पहले 15 मार्च 2006 को हुई थी। मानवाधिकार पर पिछले संयुक्त राष्ट्र आयोग को इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- जिनेवा, स्विट्जरलैंड UNHRC के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- यह एक विश्वव्यापी संगठन है जिसके पास मानवाधिकारों के लिए वैश्विक समर्थन और रक्षा को बढ़ाने की जिम्मेदारी है।
- मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय में मानवाधिकार परिषद (OHCHR) का सचिवालय है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा इसके लिए 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों को चुना गया था। लगातार दो कार्यकालों की सेवा के बाद, परिषद के सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए अपात्र हैं।

#### सीटें संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के बीच वितरित की जाती हैं:

- अफ्रीकी देशों में 13 सीटें हैं।
- एशिया और प्रशांत: 13 सीटें
- लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राष्ट्र 8 स्थानों का निर्माण करते हैं।

- पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए 7 सीटें
- पूर्वी यूरोप के देश: छह सीटें

#### यूएनएचआरसी के लक्ष्य हैं:

- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों के हनन की रिपोर्टों की जांच करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्य उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि निम्नलिखित मानवाधिकारों की चिंताओं को पूरी तरह से संबोधित और संरक्षित किया जाए।
- एक साथ आने का सम्मान
- उच्चारण और अभिव्यक्ति के अधिकार
- एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों के साथ-साथ नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है।

#### यूएनएचआरसी, भारत में:

- अनुमानित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिलीज 2020 के बारे में चिंतित, कई संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदकों ने हाल ही में भारत सरकार को लिखा था।
- भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) प्रक्रिया के तीसरे चरण के एक भाग के रूप में 2020 में परिषद को अपनी मिडवे रिपोर्ट दी।
- भारत को 1 जनवरी, 2019 से शुरू होने वाले तीन साल के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से परिषद में शामिल होने के लिए चुना गया था।





## यूएनएचआरसी के बारे में चिंताएं:

का एहसास करना है, तो उसे अपनी कमजोरियों को रचनात्मक रूप से दूर करना होगा।

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को मानवाधिकारों के मुद्दों को हल करने में विफल रहने और संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले सदस्यों को चुनने में विफल रहने के लिए पूरे वर्षों में आलोचना का सामना करना पड़ा है। सदस्यों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, रूस, वेनेजुएला और अन्य देश शामिल हैं।
- हर बार जब यूएनएचआरसी की बैठक होती है, तो इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह के आरोप लगते हैं क्योंकि इजरायल द्वारा कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान आकर्षित करने वाले प्रस्तावों को अपनाया जाता है जबकि फिलिस्तीनी पक्ष के समान आरोपों को खारिज कर दिया जाता है।
- 2008 में यह दावा किया गया था कि मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों के एक छोटे समूह ने चीन और रूस की सहायता से एक दूसरे को आलोचना से बचाने के लिए UNHRC को नियंत्रित किया।
- मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के समान, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अपने सदस्यों को चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे संदिग्ध या संदिग्ध मानवाधिकार इतिहास वाले देशों से चुनती है। यह टीम की दक्षता और निष्पक्षता पर संदेह करता है।

## निष्कर्ष:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को छोड़ दिया, ने इसमें फिर से शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा की है। चूंकि इतने सारे देश पहले से ही अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, यूएनएचआरसी एक उत्कृष्ट विचार है। अगर संगठन को अपनी पूरी क्षमता



## 2. चंद्रयान 2:

- जब भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट-लैंड नहीं कर पाया तो कई लोग निराश हुए। अंतिम सेकंड में, लैंडर और रोवर में खराबी आ गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया।
- दो साल पहले उस झटके के बाद से, परियोजना का ऑर्बिटर घटक लगातार काम कर रहा है, और बोर्ड पर लगे कई सेंसर ने नए डेटा का ढेर इकट्ठा किया है जिसने चंद्रमा और उसके आसपास की हमारी समझ को बढ़ाया है।

### जल अणु:

- 2008 में लॉन्च किए गए भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान -1 के अनुसार, चंद्रमा पर पानी है।
- इससे पहले नासा के अंतरिक्ष यान क्लेमेंटाइन और लूनर प्रॉस्पेक्टर को पानी के होने का सबूत मिल गया था।
- लेकिन चंद्रयान -1 उपकरण में पानी के अणुओं और हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स (OH) (H<sub>2</sub>O, जिसमें OH भी होता है) से संकेतों के बीच अंतर करने की संवेदनशीलता का अभाव था।
- चंद्रयान -2 इमेजिंग इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर (IIRS) द्वारा प्रत्येक का एक विशिष्ट उदाहरण खोजा गया था, जो हाइड्रॉक्सिल और पानी के अणुओं के बीच अंतर बता सकता है। यह कहीं अधिक नाजुक उपकरणों के साथ किया गया था।
- यहां दी गई जानकारी वर्तमान में चंद्रमा पर H<sub>2</sub>O अणुओं के अस्तित्व पर सबसे सटीक है।

- यह लंबे समय से सोचा गया था कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी पर अधिकांश पानी होता है। इस तथ्य के बावजूद कि इसकी पहुंच स्थान से स्थान पर भिन्न होती है, चंद्रयान -2 पहले ही हर अक्षांश पर पानी के संकेत खोज चुका है।
- दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार पहला माइक्रोवेव इमेजिंग उपकरण है जो सतह खुरदरापन और पानी की बर्फ की विशेषताओं के बीच अंतर करने में सक्षम है, और इसने ध्रुवों पर संभावित जल बर्फ की अचूक पहचान की सूचना दी है।

### मामूली घटक:

- चंद्रमा के एक्स-रे स्पेक्ट्रम को मापकर, लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (क्लास) वैज्ञानिकों को मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, लोहा, आदि जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की खोज करने में सक्षम बनाता है।
- एक बेहतर डिटेक्टर के लिए धन्यवाद, इस गैजेट ने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पहली बार ट्रेस तत्वों क्रोमियम और मैंगनीज का सफलतापूर्वक पता लगाया है।
- यह खोज चंद्रमा के मैग्मा के विकास, ग्रहों की भिन्नता और नेबुलर परिस्थितियों में उपन्यास अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है।
- क्लास ने अब एक्स-रे का उपयोग करके चंद्रमा की सतह के 95% से अधिक का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है।
- यह निस्संदेह पहली बार था जब चंद्रमा की सतह पर मौजूद ट्रेस तत्व सोडियम की खोज की गई थी।



- पेलोड में से एक, सोलर एक्स-रे मॉनिटर (XSM) ने सूर्य के विकिरण के माध्यम से चंद्रमा का अवलोकन किया है और सोलर फ्लेयर्स पर डेटा एकत्र किया है।
- इसरो के अनुसार, सक्रिय क्षेत्र के बाहर कई माइक्रोफ्लेयर की एक्सएसएम द्वारा खोज "सौर कोरोना के हीटिंग ड्राइविंग की प्रक्रिया की जांच के लिए जबरदस्त परिणाम है," एक लंबे समय से बकाया प्रश्न है।

## यह सब कैसे फायदेमंद है?

- ऑर्बिटर पेलोड, जो चंद्रमा की सतह, उपसतह और एक्सोस्फीयर के बारे में हमारी समझ को भी बढ़ाते हैं, भविष्य के चंद्रमा मिशनों को सक्षम कर सकते हैं।
- भविष्य के अध्ययन मुख्य रूप से चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: चंद्रमा के वाष्पशील और सतह के घटकों का मानचित्रण, सतह और नीचे की विशेषताओं और प्रक्रियाओं, चंद्र सतह पर विभिन्न रूपों में पानी की मात्रा का ठहराव, और पहले से मौजूद तत्वों के नक्शे।
- लगातार अंधेरे क्षेत्रों की खोज, साथ ही रेगोलिथ के नीचे क्रेटर और बोल्टर, ढीली जमा जो शीर्ष सतह बनाती है और 3 से 4 मीटर की गहराई तक फैली हुई है, चंद्रयान -2 के महत्वपूर्ण परिणाम रहे हैं। इससे वैज्ञानिकों को अंतिम मानव लैंडिंग मिशन और ड्रिलिंग गतिविधियों के लिए स्वीकार्य स्थानों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए।
- लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (LUPEX) मिशन, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच एक साझेदारी, प्रमुख आगामी चंद्रमा मिशनों में से एक है जो इस तरह के डेटा (ISRO) का उपयोग करने का

प्रयास करता है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के जल भंडार के बारे में अधिक जानना और यह पता लगाना है कि चंद्र ध्रुव चंद्र आधार के लिए उपयुक्त स्थान होगा या नहीं।

- नासा के आर्टेमिस मिशन को 2024 तक चंद्र लैंडिंग और 2028 तक चंद्र अन्वेषण संभव बनाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन प्रोटोटाइप और काफी वैज्ञानिक जांच के लिए एक मंच दोनों चीनी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम (ILRS) के लक्ष्य हैं।

**Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are**



**Vijay Kumar G**

*Founder and Director*  
**Guru Deekshaa IAS**

- ✍ First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- ✍ Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- ✍ Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

**CALL US FOR MORE DETAILS**

**☎ 76 76 74 98 77**

**JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES**

 **@GURU\_DEEKSHAAIAS**



**FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES**

 **GURUDEEKSHAA**

